



**TDSL/CS/BSE/NP/02-2023-24**

**August 16, 2023**

**To,**  
**Corporate Relationship Department,**  
Bombay Stock Exchange Limited  
PhirozeJeejeebhoy Towers  
Dalal Street,  
Mumbai- 400001

**Scrip Code- 540955, ISIN: INE773Y01014 (TDSL)**

Dear Sir,

**Sub: Submission of copies of newspaper advertisement for Un-Audited Financial Results (Standalone) for the quarter ended June 30, 2023**

---

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of newspaper advertisement of Un-Audited Financial Results (Standalone) for the quarter ended on June 30, 2023, published in the Newspaper of Financial Express, (English), dated 16/08/2023 and Jansatta (Hindi), dated 16/08/2023. The same has been made available on company's website [www.tastydairy.com](http://www.tastydairy.com).

Kindly take note of the same on record.

**Yours faithfully,**

**for TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED**

**Shamshad Alam**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**Enclosure: As stated above**



# India @77: World leaders underline 'privileged' and 'strategic' partnership

PRESS TRUST OF INDIA  
Moscow/Washington, August 15

**RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR Putin**, his French counterpart **Emmanuel Macron**, Australian Prime Minister **Anthony Albanese** and the US Secretary of State **Antony Blinken** underlined their "special", "privileged" and "strategic" partnership with New Delhi as they wished India on its 77th Independence Day on Tuesday.

In a message of greetings to President **Droupadi Murmu** and Prime Minister **Narendra Modi** on the occasion of Independence Day, President **Putin** said he is confident that the two nations will continue to boost fruitful bilateral cooperation in all areas through joint efforts, as well as constructive partnership in resolving pressing issues on the agenda. "We attach great importance to our relations of special and privileged strategic partnership with New Delhi," he said. **Putin**



A glimpse of the 77th Independence Day function at the Red Fort in New Delhi on Tuesday.

emphasised that the achievements that India has made in the economic, scientific, technological and social fields are universally recognised. "India enjoys well-deserved authority on the international stage, playing an important and constructive role in international affairs," he stressed, and wished happiness and prosperity to all Indians.

Congratulating the Indians on their Independence Day, French

President **Macron** in a post on X, formerly Twitter, said a month ago in Paris, "my friend @narendramodi and I set new Indo-French ambitions all the way to 2047, the centenary year of India's Independence." "India can count on France as a trusted friend and partner, always," he tweeted in both English and Hindi, accompanied by a video of PM **Modi's** visit to France last month.

# China, India agree to maintain peace in border areas

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, August 15

side on August 13-14, it said. It was for the first time that the high-level military talks on the lingering border row spanned two days. "They agreed to resolve the remaining issues in an expeditious manner and maintain the momentum of dialogue and negotiations through military and diplomatic channels," the statement released by the Ministry of External Affairs said. "In the interim, the two sides agreed to maintain the peace and tranquillity on the ground in the border areas," it said. The Indian and Chinese troops are locked in an over three-year confrontation in certain friction points in eastern Ladakh even as the two sides completed disengagement from several areas following extensive diplomatic and military talks.

It was for the first time that the high-level military talks on the lingering border row spanned two days.

"They agreed to resolve the remaining issues in an expeditious manner and maintain the momentum of dialogue and negotiations through military and diplomatic channels," the statement released by the Ministry of External Affairs said. "In the interim, the two sides agreed to maintain the peace and tranquillity on the ground in the border areas," it said.

The Indian and Chinese troops are locked in an over three-year confrontation in certain friction points in eastern Ladakh even as the two sides completed disengagement from several areas following extensive diplomatic and military talks.

"In line with the guidance provided by the leadership, they exchanged views in an open and forward looking manner," the statement added.

The 19th round of India-China Corps Commander-level meeting was held at Chushul-Moldo border meeting point on the Indian

quillity on the ground in the border areas," it said. The Indian and Chinese troops are locked in an over three-year confrontation in certain friction points in eastern Ladakh even as the two sides completed disengagement from several areas following extensive diplomatic and military talks.

# Congress chief Kharge skips Red Fort



Congress chief Mallikarjun Kharge celebrates Independence Day at the party headquarters in New Delhi

MANOJ CG  
New Delhi, August 15

**THE CONGRESS TUESDAY** called Prime Minister **Narendra Modi's** Independence Day address – the last of his second term – a "crass election speech" filled with distortions, lies, exaggerations and vague promises.

Congress President **Mallikarjun Kharge**, who chose to skip the official Independence Day function at the Red Fort, accused the BJP-led government of putting democracy, Constitution, and autonomous institutions in great danger. "Great people don't erase old history to write new history. They draw their line big; they don't make the already drawn line smaller by cutting or erasing it," he said.

While **Kharge** missed the Red Fort event – drawing sharp criticism from the BJP, he unfurled the tri-

colour at the AICC headquarters. The PM's address was all about himself and his image, he said, and argued that rhetoric and bluster cannot cover up the truth that his nine-year tenure has been all about bad policies, injustice and ill intention.

**Kharge** said, "First of all, I have a problem in my eyes. Secondly, as per the protocol, I had to unfurl the national flag at my residence at 9.20 am. I had to come to the Congress office too to unfurl the tricolour. Had I gone there, I would not have been able to reach here...the security is so tight... they don't let others leave till the PM leaves... and nowadays nobody is allowed to leave till the home minister, the Defense Minister, and the (Lok Sabha) Speaker leaves... our number comes after all of them."

SHASHANK TRADERS LIMITED					
CIN : L52110DL1985PLC021076					
Regd. Off. : 702-A, ARUNACHAL BUILDING, 19, BARAKHAMBA ROAD, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI - 110001.					
Phone: 011-43571041; Fax: 011-43571047; Website: www.shashankinfo.in; Email: info@shashankinfo.in					
EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023 (Rs. In Lacs)					
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 (Un-Audited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Un-Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.6	-18.97	-1.81	-25.10
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.6	-18.97	-1.81	-25.10
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.6	-18.97	-1.81	-25.10
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-1.6	-18.97	-1.81	-25.10
6	Equity Share Capital	309.38	309.38	309.38	309.38
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	Basic	-0.05	-0.61	-0.06	-0.81
	Diluted	-0.05	-0.61	-0.06	-0.81
8	Reserves excluding Revaluation Reserves				-60.02

**Note:**  
The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Financial Results is available on the BSE's website, viz., www.bseindia.com and on the Company's website www.shashankinfo.in

For and on behalf of the Board of Directors of Shashank Traders Limited  
Sd/-  
Praveen Jaswant Rai Jain  
Managing Director  
DIN: 01776424

Place: New Delhi  
Date: 16-08-2023

TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED					
Regd. Office: D-3, UPSIDC, Industrial Area, Jainpur, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh, India, Pincode-209311					
CIN: L15202UP1992PLC014593, Phone No.: 0512-4003999, Fax No.: 0512-2234244 Email: info@tastydairy.com, Website: www.tastydairy.com					
EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 (Rs. In Lacs)					
Sr. No	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30-Jun-23 (Unaudited)	31-Mar-23 (Refer Note 2)	30-Jun-22 (Unaudited)	31-Mar-23 (Audited)
1	Total Income from Operations	2,155.64	3,290.54	2,657.48	11,246.35
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, exceptional item)	-582.66	-315.49	-295.12	-955.48
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional items)	-582.66	124.17	-295.12	66.63
4	Net Profit/(Loss) for the period (After tax and exceptional items)	-429.16	-124.00	-214.24	-9.15
5	Total Comprehensive income for the period comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	-448.90	-123.33	-213.84	-6.27
6	Equity Share Capital	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) and shown in the balance sheet of the previous year				1,069.50
8	Earning per share (Of Rs.10/- each) (for continuing operations)				
	Basic	-2.10	-0.61	-1.05	-0.04
	Diluted	-2.10	-0.61	-1.05	-0.04
9	Earning per share (Of Rs.10/- each) (for discontinuing operations)				
	Basic	-	-	-	-
	Diluted	-	-	-	-
10	Earning per share (Of Rs.10/- each) (for continuing and discontinuing operations)				
	Basic	-2.10	-0.61	-1.05	-0.04
	Diluted	-2.10	-0.61	-1.05	-0.04

**Notes:**  
1. The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 14, 2023 and statutory auditors have carried out a review of these financial results.  
2. The figure for the quarters ended March 31, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and published unaudited year to date figures upto the third quarter of the respective financial year, which were only reviewed and not subject to audit.

For Tasty Dairy Specialities Ltd.  
Sd/-  
(Atul Mehra)  
Chairman & Whole Time Director  
DIN: 00811607

Place: Kanpur  
Dated: 14.08.2023

PAVNA INDUSTRIES LIMITED									
Regd Office : Vimlanchal, Hari Nagar, Aligarh, Uttar Pradesh - 202001									
Email: info@pavnagroup.com; Website: www.pavna.in									
CIN : L34109UP1994PLC016359									
Extract of Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023 and Unaudited Consolidated Financial results for the Quarter ended June 30, 2023 (Rs.in lakhs)									
S.no.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended		Year Ended		Quarter ended		Year Ended	
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total revenue	6907.71	6139.08	6785.29	26362.44	8185.47	8507.05	8512.25	36417.08
2	Profit/(Loss) before share of Profit/(loss) of associates, exceptional items and tax	385.02	409.96	88.09	1002.12	522.11	747.84	27.92	1210.58
3	Profit/(Loss) before share of Profit/(loss) of associates and Tax	385.02	409.96	88.09	1002.12	522.11	747.84	27.92	1210.58
4	Profit/(Loss) for the period	283.68	302.55	61.79	728.53	409.62	604.46	-40.03	863.56
5	Profit/(Loss) for the period after share of Profit/(Loss) of associates	283.68	302.55	61.79	728.53	409.62	604.46	-40.03	863.56
6	Total Comprehensive Income for the period/Year	285.30	306.95	65.88	746.14	411.51	612.96	-31.84	897.32
7	Paid up Equity share capital (Face Value of Rs.10 per share)	1218.08	1218.08	1218.08	1218.08	1218.08	1218.08	1218.08	1218.08
8	Earnings per Equity Share								
	(1) Basic	2.33	2.48	1.01	5.98	3.36	4.96	-0.66	7.09
	(2) Diluted	2.33	2.48	1.01	5.98	3.36	4.96	-0.66	7.09

**Notes:**  
1. The above standalone financial results for the quarter ended June 30, 2023 and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2023 were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 14th 2023. Limited review of these financial results for the quarter ended June 30, 2023 as required under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors of the Company. The full format of the Financial results are available on the Company's website (www.pavna.in) and stock exchange website (www.bseindia.com & www.nseindia.com).

For and On Behalf of Board of Directors  
Pavna Industries Limited  
Sd/-  
Swapnil Jain  
Managing Director  
(DIN: 01542555)

Date: 14.08.2023  
Place: Aligarh

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India			
POSSESSION NOTICE [Rule 8(1)] (For Immovable Property)			
Whereas, the undersigned being the Authorized officer of the Union Bank Of India Branch Nayaganj, District Ghaziabad, Uttar Pradesh under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice below mentioned dates calling upon below mentioned borrowers to repay the amount, as below mentioned in the notice being within 30 days from the date of receipt of the said notice.			
The Borrowers having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrowers and public in general that authorized officer has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13 (4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Act Rules 2002 on below mentioned dates.			
The Borrower in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of the Union Bank Of India Branch Nayaganj, District Ghaziabad, Uttar Pradesh for an amount as mentioned against case. The borrower's attention is invited to provisions of sub - section (8) of section 13 of the Act. In respect of time available, to redeem the Secured assets.			
S. No.	Name of the Borrower	Date of Demand	DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY
1.	Mr. Shehzad Mr. Chandand Mr. Sultan (Borrower)	27.01.2016 Rs.8,21,671 as on 30.11.2015 plus future interest and other legal charges	Residential Property Situated at 2103 A Khata no. 767 khasra no. 159/1 Idgah Road, Kaila, Ghaziabad, U.P measuring Area 88.52 Sq.Mtrs. In the name of Mchd. Sehzad Sio Mond. Usar Boundaries:- East - Property Akhlaik West - Property Sultan & Chand North - Property Other Owner South - Road 20' Wide
Date: 16.08.2023 Place: Ghaziabad			Authorised Officer Union Bank of India

RAJASTHAN TUBE MANUFACTURING COMPANY LIMITED				
CIN:L27107RJ1985PLC003070				
REGD. OFF: 28-37, BANKE BIHARI INDUSTRIAL AREA, JATAWALI MOD, MAHARKALA ROAD, VILLAGE DEHRA TEH CHOMU, JAIPUR-303806, Email:rajtube@hotmail.com, Website: www.rajtube.com				
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2023 (Rs. In Lacs, unless otherwise stated)				
S. No.	Particulars	Quarter Ended		
		30.06.2023 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	
1	Total Income from Operations	2547.67	3259.69	
2	Net Profit/(Loss) for the period for ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	32.30	20.10	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	32.30	20.10	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	32.30	20.10	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	32.30	20.10	
6	Equity Share Capital(Face Value Rs 10/-)	449.99	449.99	
7	Earnings Per Share -			
	1 Basic:	0.72	0.45	
	2 Diluted:	0.72	0.45	

**Notes:**  
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and Company's website(www.rajtube.com) 2. The above Unaudited Results for Quarter ended 30th June 2023 have been reviewed by audit committee and approved by the board of Directors at their respective meeting held on 12th August, 2023. 3. The Company is engaged in the business of manufacturing of ERW Steel Tubes. As there is only one reportable segment, the company has not given any segment information. 4. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant Rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015. 5. Provision for taxation will be considered at year end.

For and on behalf of Board  
Harish Chand Jain  
Managing Director  
DIN: 01504391

Place: Jaipur  
Date: 12th August, 2023

WELGA'S		WELGA FOODS LIMITED	
Regd. Office: Shiam Nagar, Budaun- 243601 U.P.			
CIN: U15419UP1983PLC005918			
E. marketing@welgafoods.com; ho@welgafoods.com			
W: welgafoods.com; M: +91 70801 72555			
<b>FOR KIND ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS - REGISTER E-MAIL ADDRESS &amp; CONTACT DETAILS, DEMATERIALIZATION OF SHARES AND KYC</b>			
I. We hereby request all the shareholders to update their Email IDs & contact numbers for supply of Annual Reports, Notice of AGM and other communications from the Company at welgasc@gmail.com latest by Friday 25 <sup>th</sup> August, 2023. Kindly note that no physical copy of Annual Report 2022-23 will be sent to the members either before or after the AGM.			
II. In compliance with the SEBI notification dated 8 <sup>th</sup> June, 2018 & the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Third Amendment Rules, 2018 dated September 10, 2018 all the public shareholders of the company are requested to get their shares dematerialized otherwise, an investor will not be able to transfer the shares held in physical form using a transfer deed w.e.f. 1 <sup>st</sup> April, 2019 & 2 <sup>nd</sup> October, 2018. The transfer will be possible only after dematerialization of these physical shares.			
III. As per SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16 <sup>th</sup> March, 2023, on Common and Simplified Norms for processing investor's service requests by Registrar and Transfer Agent (RTA) and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination, shareholders of the Company are requested to note that it is mandatory for all the Physical Shareholders to update the PAN, KYC, Nomination details, Bank details, Contact details and Specimen Signature with RTA/Company on or before 30 <sup>th</sup> September, 2023. Otherwise such folios/shares shall be frozen by RTA on or after 1 <sup>st</sup> October, 2023 (or any other date as may be notified) as per the directive issued by SEBI.			
<b>BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR WELGA FOODS LIMITED</b>			
<b>GAURAV PRAKASH DIRECTOR &amp; CFO</b>			
DIN: 00159435			
DATE: 14 <sup>th</sup> AUGUST, 2023		R/O: C-2802, PIONEER ARAYA, SECTOR-62, CHAKARPUR (74), GURGAON, HARYANA - 122002	
PLACE: GURGAON			

ACI INFOCOM LTD	
Shop 109,1st Floor, Dimple Arcade Premises CHS Ltd Asha Nagar, Thakur Complex, Kandivali East, Mumbai - 400101	
CIN: L72200MH1982PLC175476	
<b>NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 41<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING</b>	
NOTICE is hereby given that the 41 <sup>st</sup> Annual General Meeting of the Shareholders of ACI Infocom Limited will be held on Friday 29 <sup>th</sup> September, 2023 at 2.30 PM at the Registered Office at Shop 109, 1st Floor, Dimple Arcade Premises CHS Ltd, Asha Nagar, Thakur Complex, Kandivali East Mumbai - 400101 to transact business as set out in the notice of AGM which is being circulated for convening this AGM. The Notice of AGM along with Annual Report 2022-2023 will be sent only to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories unless any member has requested for a hard copy of the same. Hard copies of the Annual Report are being sent by the permitted mode to those Members who have not registered their e-mail addresses. Members may note that Notice of AGM and Annual Report 2022-2023 will also be available on company's website www.acirealty.co.in, website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Members attending the AGM physically shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act 2013.	
The Company is providing the remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the notice of AGM. The detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.	
If your email ID is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address.	
In case if you have not registered your email address with the Company /Depository, please follow below instructions to:	
a) Register your email id for obtaining Annual Report and login details for e-voting.	
Physical Holding	please provide Folio No. Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to compliance@acirealty.co.in.
DEMAT Holding	please provide DPID-CLID (16digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to compliance@acirealty.co.in.
Date : 14/08/2023 Place: Mumbai	For Aci Infocom Limited Sd/- Kushal Chand Jain DIN: 03545081 (Managing Director)



